

Our Voices

2024-25

Nursery - V



INKYFINGA WRITES



Amoha Meena
NUR-A



Divyam Patel
NUR-A



Kanishk Shrivastava
NUR-A



Prishi Hajipura
NUR-A

INKYFINGA WRITES



Siddharth Shah
NUR-A



Zunairah Pathan
NUR-A



Upasana Mathpal
NUR-A




Yuvika Rawat
NUR-A


INKYFINGA WRITES




*Ali Kundan
PREP-A*



*Maanvi Patel
PREP-A*



*Mann Patel
PREP-A*




*Rahi Timbadiya
PREP-A*


INKYFINGA WRITES



Reyansh Mishra
PREP-A



Shreeja Patel
PREP-A




Aarav Patel
PREP-B




Tithi Gondaliya
PREP-A


INKYFINGA WRITES



Eva Shah
PREP-B



Aarvi Patel
PREP-B



Jihan Brijani
PREP-B

INKYFINGA WRITES



My Dream House

My dream house is in the middle of the mountains close to a lake and surrounded by tall trees. The house is huge with big windows where I sit and see the stars and the moon at night. There is a game room with all kinds of fun games and a T.V. room where we can watch movies. The house has bright colours and the furniture is soft and fluffy with colourful cushions. Outside the house, there is a garden full of flowers and it feels peaceful and calm in my dream house.

Kiyaan Sheta
I-A



A Visit to a Zoo

I visited the zoo with my parents during last year summer vacations in Ahmedabad. We saw animals like elephants, bears, deer and birds like peacock, parrot, etc. My favourite animal is giraffe because it has a tall neck and I fed the giraffe, lots of leaves with my hands. It was a very fun moment for me when I came to know the different animal houses they live in, like lion hiding inside its den, birds sitting in their nest, etc. It was really an enjoyable day with my family.

Yashika Pal
I-A



Spring Season

Spring Season is my favourite season. It is known as the king of all seasons. It is a very peaceful season. The mornings and the evenings are very nice in this season. Holi, Baisakhi, Basant Panchami and many other festivals are celebrated in this season. It always comes with lots of love for everyone.

Vinisha Bachani
I-A



My Favourite Season

Rainy is my favourite time, because it makes everything feel so fresh and cool. I love watching the raindrops falling from the sky and I also like to play in the puddles with my friends. Sometimes, I also make paper boats to sail in the puddles. Plants and trees look very green and fresh. Farmers are very happy because the rain helps the crops to grow.

Shayra Sewani
I-A



My Dream House

My dream house is very big and beautiful. I wish to live there with my happy family. It has a red roof and the white walls. There is a big garden. The garden has lots of flowers and trees. It has tree rooms. There is a big swimming pool in my house. I can swim there with my friends. My house is near a park where I can play. I love my dream house very much.

Aarav Kumar
I-A

INKYFINGA WRITES



How to Take care of a Pet



Taking care of a pet is important to help them stay happy and healthy. Always give them fresh food and water every day. Make sure that pet's have safe and clean place to sleep. Take pet for a walk and play with them. Brush your pets regularly. Take them to the vet check-ups and for vaccination. Clean your pet's living area. Be gentle with your pet.

Aaryash Dubey
I-A



Care of a Pet

Pets need love and care. Give your pet fresh food and clean water every day. Make sure your pet has a clean and cozy place to sleep. Take your pet for walks and play with it. Brush your pet to keep it clean. Take your pet to the vet to keep it healthy. Keep your pet's home clean. Always be kind and gentle with your pet.

Ammar Godil
I-B



Spring Season

Spring season is a nice season. It is not too hot and not too cold. Flowers bloom and trees look green. Birds sing sweet songs. I like to play outside in spring. Festivals like Holi and Basant Panchami come in this season. Spring makes everyone happy.

Frinza Gadhiya
I-B



My Favourite Player

My favourite player is Mahendra Singh Dhoni. He is my favourite player because of his batting and wicketkeeping. He is one of the most famous cricketers. He has so many reports like the fastest stumping. He plays for India and Chennai in IPL. Dhoni's jersey number is seven that is also his lucky number. In his childhood he was living in Ranchi. People call him with different names like Captain cool, Thala and Mahi. He was one of the best Indian captains. Dhoni has invented the helicopter shot in cricket. I wish Dhoni can play a little more.

Rudra Agrawal
II-A



My friend like my sister

My friend's name is Jeetika. She is eight years old. We share things like a sketch pen, eraser, sharpener and pencil. She is very kind. Her voice is like sugar. Her face is like the moon. Her hair is very long and strong. Her eyes are like peacock feathers. I love my friend.

Divya Agarwal
II-A



Power of happiness

If I were a superhero, my power would be spreading kindness and happiness everywhere. My superhero name would be "Smiley Girl". If someone is sad, I will cheer them up with my magic smile. I will share toys and food with poor children. I will stop fights and make everyone friends. If people are angry, I will make them laugh. The world will be full of love and joy with my superpower!

Vani Narola
II-A



If I had a magical wand

If I had a magical wand, I would make a portal and go inside. Will beat me to a magical world. Then I will see a flying cat, a fish sleeping on land and many more things. It would make a big rollercoaster to ride and stuff. I would make a friend so that I am not alone. Then I will create a theatre. We will watch funny videos. I will make many more friends so that we can play together and bring all my friends to my real world.

Iyaad Garasiya
II-A



If I have a magical wand

If I have a magical wand, I will use my fairy power to change the world. I will wipe all bad things like illness, sadness and corruption. Secondly, I will spread happiness and discover all new beautiful places. I will help poor and needy people. I will help my parents and elders at home. I will use my magic wand to fulfill my wishes like going for a vacation.

Nitya Patel
II-B



INKYFINGA WRITES

The Toothpaste Mishap: A Foamy Surprise



One morning, I was half asleep while getting ready for school. I grabbed my toothpaste only to realize something tasted strange. To my horror, I had used my dad's shaving cream instead of toothpaste! My mouth was filled with foam and I ran to the sink, spitting it out while my family laughed uncontrollably. My mother even recorded the whole thing and showed it to everyone at school. From that day, I always double-check my toothpaste before brushing. It was embarrassing but also one of the funniest things that ever happened to me.

*Hayaan Patel
III-A*



A Fun-Filled Day Without Television



A day without television sounds boring but let's see how one does it. I woke up in the morning and started preparing breakfast. The strawberries smoothie and chocolate pancake turned out amazing. After breakfast, I finished a few books I couldn't because of TV. I finished reading and went outside to play with my friends. While playing, we found an injured bird. We decided to make a cardboard birdhouse. On the way back home, all I could think about was making with my aunt. We made chocolate cupcakes, it was yummy. After eating, I called my friends for a sleepover. Instead of just having a movie night, we made friendship bracelets, told scary stories and had pillow fights, and then we fell asleep. My attempt was fairly successful. At the end of the day, I realized that this experience helped me be more creative and happier.

*Inaya Mulla
III-A*

My Secret Adventure with an Alien Friend



What if I told you that aliens aren't scary but are your best friends? You never knew you needed it.

One windy evening, I was playing in the treehouse with my friends. I went out to get some water. When I was coming back, I heard a crash sound. All of my friends came down to see what happened. There was a tiny alien looking here and there. The alien said nervously – Hey, I am Chingy. I was shocked to see an alien on Earth. I asked - Are you real? Real as a rainbow. I can't understand what he was trying to say. It was doing some actions, so I understood that he was asking for help. Now the mystery begins! First, we went to the kitchen. We saw mom baking, so we had to be very sneaky. With the alien's camouflaging power, we finally got our first tool. We checked the whole house, but we couldn't find anything. So, we checked in the garage and found a gear that could help us. Then we fixed the spaceship and helped our alien friend Chingy go. With a zoom, the spaceship goes.



*Missa Dama
III-A*

Trunky, the Talking Tree: A Lesson in Nature



One day, as I was watering plants in my garden. Suddenly, I heard a voice 'Atulya'. I wondered and looked around but no one was there. Again, I heard that voice I got scared."Atulya, it's me look behind." I looked behind and was surprised to see a tree talking to me. "Hello! What is your name I asked. The tree replied - My name is Trunky. How do you know my name? I asked. He said, "When you were watering the plants and when your mother called out your name, I heard it. So that's how I got to know your name." Then I and Trunky started talking. He told me the importance of trees. He told me what we get from trees. For example- fruits, vegetables, etc. He also said that trees are home to birds and animals. Trunky advised me that cutting trees is disturbing nature and the Ecosystem. I promised him that on my every birthday, I would plant five trees. I came back home and told my mother about Trunky.

*Atulya Kashyap
III-A*

INKYFINGA WRITES



The Magical Talking Tree: A Friend in My Garden

There is something truly magical about my garden. Among the flowers, the soft grass and the buzzing bees, there stands a tree unlike any other. It was tall and strong, its branches stretching towards the sky, its leaves whispering in the sky. But what makes this tree special is that it can talk!

I discovered this secret one quiet afternoon. I was sitting under its shade, reading a book, when I heard a gentle voice say, "That's a good story." I jumped up and looked around, but no one was there. Then I realized the voice was coming from the tree! The tree chuckled, "Don't be scared". It said, "I have been here for many years watching over this garden, its stories and its secrets."

From that day on, the talking tree became my friend. I told it all my secrets and stories of the past. It spoke of birds that had built their nest in its branches, children who had played around it and of the changing seasons it had seen for decades. The tree had wisdom alike no one else. When I was sad, it comforted me with its rustling leaves. When I was happy, it swayed with joy. It taught me to be patient like its roots, strong like its trunk and kind like its shed. Now, every time I stand in my garden, I greet my special friend. The world may not believe in talking trees, but I know that magic exists in my own backyard.



*Samiya Chamadia
III-A*



The Night an Alien Landed in My Room

Oh my God! I You won't believe what happened! I have a new best friend, and he is from space! His name is Boop and he was from planet Rainbow. He was all fuzzy and orange and had little antenna that glowed in the dark. He landed his spaceship right in my bedroom! It looked like a giant, sparkly beanbag chair. Boop brought me rainbow rocks from his planet. They tasted like cotton candy and they made my tongue purple! We played space hopscotch on my bedroom floor. It was like regular hopscotch but you had to bounce super high like you are on the Moon. Book was really good at it because he can float. We watched alien cartoon on his spaceship's TV. They were about these little green blonds that went on crazy adventures. They were really funny, even though I didn't understand what they were saying. Boop just giggled and pointed at the screen. Then it was bedtime. Boop let me sleep in his beanbag spaceship. It was so comfy. He told me stories about planet Rainbow. It has rivers of chocolate milk and trees that grows lollipops. Suddenly someone shouted loudly to wake me up - it was my mom, and the bean bag spaceship was gone. My purple tongue was back to normal and the rainbow rocks had disappeared. It was all dream! But... I found a tiny orange feather on my pillow. It was fuzzy just like Boop! Maybe It was not just dream after all. May be Boop will come back for another intergalactic sleepover. I hope so I am going to leave some cotton candy out just in case.

*Moksh Ahir
III-A*



A Day Without TV: A Refreshing Experience

One day without television can be a surprising experience. Something many of us watch our favourite show, movies or the news but what happens if we suddenly spend a day without it?

At first, I thought it would be difficult. I always watch cartoons, sports and education programs. Without t.v, I felt a little lost and the day quite boring. But as the day went on, I realized there were many things I could do instead. I spend time reading books and playing outdoor and indoor games with my friends and sibling. I even help my parents with some small chores around the house. Without television, I also had more time to talk to my family. We sat together and share many stories which made me realize how important it is to connect with the people around us. One of the best parts was that I felt less tired usually, after watching TV for a long time, I feel sleepy and restless. Without it, I felt more active and full of energy. Overall spending one day without television helped me spend more quality time with my family. It was a refreshing break and I think I should do it more often. It made me realize that there are many interesting and enjoyable way to spend the day without always relying on TV.




*Rakshit Gupta
III-A*

INKYFINGA WRITES



A Magical Friendship Under the Mango Tree

It was afternoon. My sister and I were playing in the doll house in the garden. Just then, she picked my doll and ran. I became very angry and, in my anger, I threw her doll in a nearby pit. My sister came looking for her doll and started crying. She also returned my doll. I ran away ashamed of my action and set beneath the mango tree in my garden. Just then, I heard a voice. "Do you feel bad?". I was astonished to see the tree speak. I got scared and decided to leave the place. Then the tree said again – "Dear child, I am your friend. I like children and offer them mangoes and shelter. I am very lonely, so I like talking to children. "Will you be my friend?" I promise to give you ripe mangoes and you can also make a swing on my branches. I realized the tree was harmless. The tree told me what I did to my sister was wrong and I should not do that. Such actions not only affect the other person but also it affects us. Since that day, the talking tree became my friend and my guiding light.



*Dhiya Kurup
III-B*



My Cosmic Adventure with an Alien

It was Sunday. I woke up at 8:30 a.m. I was really thrilled today because me and my entire family were going to an adventure park but we were leaving a bit early as it was really far so I had to get ready fast and go down for breakfast but when I looked out of my room's window, I saw something unbelievable. It was an alien spaceship! I thought I was daydreaming, so I pinched myself but it really was it! I rushed down in the garden and I saw something coming out of it. It was an Alien! I thought I was daydreaming so I pinched myself but it really was there! I rushed down in the garden and I saw something coming out of it. It was an alien. I thought it came to kill me, so I ran but soon I was at a dead end and the alien was coming near me every second or snap the bright neon green coloured creature with eyes the colour as their coal. It was so scary but was really friendly. It came near me and said "Hi! I'm Alley. I am from Uranus Valley. I said What?? Uranus Valley?? Ally said "Uranus valley is located on Uranus. Visit me now." I replied – "Let me get ready and I will come with you, but you have to be fast because I am going out today. I got ready. Ally and I sat in the spaceship and in a blink of an eye we were on Uranus. Ally said – "Did you know Uranus is the third largest planet, it has 27 moons, a thick atmosphere made out of methane, hydrogen and helium? It spins on the side. It also has 13 rings made of Ice and rock chunks and it is an ice giant meaning it's mostly made from frozen gases like water, methane and ammonia." And I woke up from my amazing dream.



*Nandini Jayswal
III-B*



When the Power Went Out

Television is one of our favourite modes of entertainment. It is almost impossible to imagine our lives without it. But have you ever thought of taking a day off from television? Something similar happened to me on one fine Sunday. There was a power cut for a day. I was filled with so much despair and hopelessness about having to spend the entire day without television but then my father intervened. He took me downstairs to play cricket in the compound. After a sweat-filled play, we had our lunch and took a nap. Then my father introduced me to number of indoor games like cards, carrom, chess etc. Then, another couple of hours went by learning and playing those games. Oh, what a fun it was. Then the power came.

*Trishan Macchar
III-B*

INKYFINGA WRITES



The Beauty of Small Joys

It's the little things that make me happy. If I get to see it in a patch of warm Sun, then I am happy, especially if one of my dog's approaches and curls up next to me. If my mom happens to make one of my favourite foods like chai Puri or tries making something new, then I get to eat good food, and I am really happy. I love the euphoria of looking out the car's window while a bubbly song is playing. Even after a tiring day, if my friends ask me to play cricket, it makes me happy because it's my favourite game. When my father reaches home from the office, I feel happy. I get a chance to meet my cousins, and we play together, which makes me happy. Helping others gives me a sense of fulfilment. At last, I believe that happiness can be found in the simple pleasures of life. Small moments make life more beautiful and memorable.



Vivan Raj
III-B



What makes me Happy

I feel happiest when I play any game with my close friends. Also, I enjoyed playing badminton, chess, ludo, table tennis and other indoor games. Feel very happy when I go for an outing with my parents to explore new places. I eagerly wait for the school's day picnic, and it makes me really happy. I feel happy when I get appreciation from school teachers and parents for any good achievements. I also feel happy when I see the beauty of nature. I feel happy when I contribute to others. I also feel happy when I meet my school friends when I go for an outing. I also feel happy when I get surprises on random days. Even family time makes me happy. I think I am the happiest person on this planet.



Nihit Shah
III-B



My Secret Robot Companion

One day, I found a strange-looking capsule in my garden. When I pressed the red button on it, PooF! -out came my robot friend from the future! Kepu is round and blue with tiny boosters under his feet and a magic pocket on his belly, just like Doremon. He can pull out the craziest gadgets like an invisible clock to hide me from my sister or a time jumper to help me redo my homework if I make mistakes. Kepu always saves me from trouble. When I forgot my lunch box, Kepu flew in seconds and gave me my lunch box. I love Kepu because it does everything that I say.

Jishan Mistry
III-B



My Robo Friend

Aarav was a curious boy who loved inventing things. One day, he found an old robot in his grandfather's store room. It was dirty and broken, but Aarav decided to fix it. The robot's eyes lit up, and it spoke, "Hello friend!" Aarav named him Robo. Robo could talk, walk, and even help with homework. Every day, Aarav and Robo play together, solve puzzles, and learn new things. Robo even helped Aarav clean his room and water the plants. One evening, Aarav's kite got stuck in a tall tree. He couldn't reach it, but Robo extended his long arms and pulled it down. Aarav was worried, but his grandfather helped him find a new battery. Robo was back to normal again. From that day on, Aarav learnt that true friendship means taking care of each other. Robo was not just a machine; he was Aarav's best friend. Together, they had many adventures, proving that friendship can exist even between a boy and a robot.

Raj Kalwani
III-B



INKYFINGA WRITES



My Role Model is Sher Jung Thapa

Sher Jung Thapa was a brave soldier and he is my role model. He became famous for his courage during the 1947-1948 war between India and Pakistan. Thapa was in-charge of protecting a place called Skardu in Ladakh with only a small group of soldiers. Even though they were outnumbered and faced many difficulties, Thapa and his men held their ground and did not give up for six months. From his life, I have learnt several important values. One of them is courage. No matter how tough the situation is, Sher Jung Thapa teaches us to stay brave and face challenges, head-on. Another value is patience. Even when things seemed impossible he waited for help and stayed focused on his duty. Lastly, I learnt the value of loyalty. He showed great love for his country by protecting it. Thapa's bravery, patience and loyalty inspire me to be strong and do my best in everything I do.




*Preya Patel
IV-A*



My Role Model - Captain Vikram Batra

My role model is Captain Vikram Batra, an officer of the Indian Army, the Kargil war hero. His fighting skills and leadership earned him the country's highest award the Param Vir Chakra. During Kargil war Captain Vikram Batra was leading a company of soldiers in the battle for point 5140, a strategic hilltop that the Indian Army was trying to recapture from the Pakistani forces. Captain Batra was wounded in the battle, but he refused to give up and kept leading his men an inspiring them to fight bravely. Captain Batra was killed in action, but his leadership and sacrifice helped the Indian Army to win the war for point 5140. I have learnt many values from his life such as courage, determination, leadership and patriotism.



*Reyansh Yadav
IV-A*



If I become the Captain of a Cricket Team

Cricket is my favourite sport. It is my passion and future too. It is my dream to become a captain of the Indian cricket team.

If I will be a captain of the cricket team I will focus on the unity and team spirit first. I will ensure that each and every player of the team will play for the team and for individual and not for individual records. I will give fair chance to each and every player to give his best. I will use the experiences of senior players and take their suggestions to win the game. I will motivate and improve the skills of young players. We will try to practise more and more before every match. I will ensure that each player of my team focus on his Game first and won't waste his time on advertising and other media interactions. I will also look that each player gets enough time throughout the year so that every player can play for the team for a long time with good records.

I know cricket is not a game but emotion for our country, so I will try to win every match to fulfil people's expectations. My ultimate goal will be keeping the World Cup trophy in India for a long time.




*Dhyana Sarvaiya
IV-A*



My Favourite Book

My favourite book is 'Charlie and the Chocolate Factory.' It is written by the famous author Roald Dahl. Wonka's chocolate factory is a fantasy world where chocolate river flows. Oompa-Loompa's sing and dance and every candy delight brought to life Charlie and the four other children embarks on a tour led by eccentric Wonka himself. The other children played by a specific vice succumb to temptation and meet comical yet cautionary fates.

Through these mishaps Dahl imparts valuable lessons about greed, gluttony and the importance of humility. Charlie with his kind heart and genuine appreciation for the experience emerges as the winner. In the end Wonka seeking an heir to his chocolate empire recognises Charlie's worthiness and bestows upon him the greatest prize of all: The Factory itself. Charlie and the chocolate factory is a testament to the power of imagination and the enduring appeal of a good model tale. It's a story that reminds us that through riches lie not in material possessions but in character and kindness.



*Mohamed Zidan Miyajan
IV-A*

INKYFINGA WRITES



What makes me Happy

Happiness is when you have someone to share your moments with. Happiness is when you have someone that makes you happy even on the most sad times.

Many people have a lot of things and they are not thankful for what that brings alive and healthy is the best reason for happiness. Is it an expensive car, phone or money? No, none of these can make me happy.

I could say that everyone around has something that causes happiness in the heart. But, I have someone that makes me happy. Whenever I look in their eyes and realise that I made your day better, it makes me feel like I could fly. You can't hear the happiness, you can't see it but you can feel it. And, I can surely say that happiness can't be bought, it doesn't come from the things we buy, it doesn't come from the subjects, it comes from the inside of heart.

Making memories with our friends, spending time with them, jokes and long lasting conversations, it's the best part of our life. Some people hate each other, but no they don't because hate doesn't exist, God made us to love each other in the way we are, he made us to rise happiness in this world.

Rahil Balar
IV-A



Cricket Captain: A Dream Role

Typically a captain is a person who leads the team. The captain should have a quality of leadership, responsibilities and a bunch of experience.

If given a chance that I would be a captain of a cricket team I would lead the team with honesty and great team spirit. I will look special skills of each player and will identify their strengths and weakness to build a good team. Once the team is all set I will explain the expectations from the game. I will support the team to understand each other so that we can jump on the field united. By understanding the opponent's strategy and I will make a unique strategy.

Understanding responsibility of the captain I will try to achieve desired goals by providing leadership decision-making and good team spirit. I will surely lead by giving my best ever.

Nihaan Limbachiya
IV-A



A Brave Leader – Guru Gobind Singh

The tenth and last of the Sikh Gurus 'Guru Gobind Singh' lived during an extremely hostile period. His father Guru Teg Bahadur had sacrificed his own head to protect the Hindus who were being threatened with conversion or death by fanatic Muslim rulers.

In the midst of this political situation Guru Gobind Singh gained great stature as both saint and soldier: a leader of firm spiritual principles and intense devotion to God and at the same time fearless dedication to protect all from oppression and injustice. The story of Guru Gobind Singh who had to shoulder the responsibility, the responsibility as 'Guru' when he was just nine years old will not only inspire the Sikhs but every person who loves bravery and has faith in God. The 'Panj Pyare' (Five Beloved) episode detailed in this book infused a new life in Sikhism and brought discipline in its followers.

Guru Gobind Singh taught that a true Sikh should maintain inner resilience and positivity, trusting in God's will regardless of the circumstances. This lesson has profound implications for the challenges individuals face today, urging them to cultivate inner strength through faith and positive thinking.



Mishika Sumani
IV-A



A Night to Remember: My First Outing

My first experience at night camp was fun-filled and a feeling of as if I was to become an astronaut. We learned about many successful astronauts like Rakesh Sharma, Sunita Williams and Kalpana Chawla.

Our respected guide behind this was Mr Prakash Dey sir. He was an interesting man. How hard he studied to know about all these things. First he was working in ISRO (Indian Space Research Organisation). He

taught us about many constellations, we saw one of them named Orion the Hunter. We also learnt many interesting facts about different planets and stars. There is North Pole and South Pole in the sky. We saw planets like Jupiter, Mars, Venus and Saturn. He had brought two telescopes, one big white telescope named as 'Reflector' and black which was small named as 'Refractor'. We saw planet generally known for its beautiful rings, it is Saturn with 'Reflector.' We saw Venus with our naked eyes, but it was very small.

INKYFINGA WRITES

We enjoyed very much as we also made Bhelpuri with our classmates. We first did ground activities and clicked photos. We played many games, danced and played Garba. After 12 o'clock at the midnight we went on the terrace to see the planets. We also did a campfire and sang songs. First of all I would like to thank Mr Prakash Dey sir for teaching us interesting things and also our DPS Tapi for their very smart and hard work they did for us. It was the best night camp ever and I will always have these unforgettable memories with me forever.

Shloka Goti
IV-A

My Favourite Movie - Moana



My favourite movie is Moana. Moana is a story about a little girl who was very friendly with nature and water. She liked to play with water. She kept water clean too. She lived in a small village near the ocean. She was very friendly and naughty. Now she was growing up and becoming more responsible.

Moana liked to sit near the ocean and sing songs. Her grandma always loved her and told stories of nature. Few days passed, one day when she was at the ocean and was collecting sea shells then she found a shiny stone. Te Fiti's heart, a small pounamu stone, which possessed the power to create life and raise islands. But it also attracted monsters who tried to steal it for its creative power. It was stolen by the demigod Maui, who planned to give it to humanity as a gift. One day her grandma told her some secret talks. Grandma told her to go inside a tunnel to see what is there inside it. When Moana opened the tunnel, she found many big boats that were used by Voyagers. Then she got to know that all the villagers were once Voyagers. But they have stopped now. Moana learns the ways of a way finder under Maui and Mini Maui. The Kakamora crave the heart of Te Fiti's power, but Moana stands her ground and fights back. She successfully recovers the heart and defeats the pirates. Though Maui commends her on surviving, he still refuses to help return the heart. Thus, we learn the lesson of bravery and also you are your own way-finder.



Kumari Mukta Mahato
IV-B

The Things That Bring Me Joy



Happiness is a state of mind that varies from person to person. It is not a fixed idea for anyone and depends entirely on the situation. For me happiness lies in treasured memories and real connections. These are the little moments that matter most, whether it is sharing laughter over a meal or just enjoying someone's company.

My happiness mostly comes from the bonds I share with my family and friends. Nature also helps me feel calm and joyful. The gentle breeze, singing birds and quiet surroundings gives me peace from the busy world. It reminds me of life's beauty. Also being kind and caring to others brings me peace. Making someone smile fills me with joy. Along with that, chances to grow in my personal life give me a sense of purpose. Yet happiness for me is about great gesture or celebrations. Real happiness doesn't need to be shown but felt within and only simple moments truly make me happy inside. Happiness is a journey to enjoy not a goal to be achieved at all cost.

Vivia Tejani
IV-B

Importance of Health and Hygiene



Health is the normal and healthy state of the body. Hygiene refers to good practises that prevent diseases and lead to good health especially cleanliness. If we will be clean so no one will say us that you are untidy. Don't take this thing lightly, it can help you to be clean and then everyone will praise you. Your health is all about living a good physical life. Being clean is good for you. Health and hygiene is very helpful for you.

Being clean is good for environment. We should keep ourself and our surroundings clean. If you want to live a healthy life you must eat a balanced diet. If you want to be a hygienic person so always wash your hands before eating something. If your hands are dirty you can also wash them with a sanitiser. Your personal hygiene, benefits your own health and impact the lives of those around you too. Drinking clean water can also help you to be clean. Give advice to people who are not following it. Maintain proper health and hygiene around your surroundings. Health and hygiene is the biggest thing that you should follow and maintain. The saying goes for 'Health is Wealth'. It is truly sad that among all things in the world, health is most precious that one can possess. We should maintain this thing wisely. Our country is hygienic but it should improve. The most cleanest city in India is Indore in Madhya Pradesh.



Aavyaan Shah
IV-B

INKYFINGA WRITES



Under the City Lights: My First Night Out

My first experience at night out was called Adventure Night Camp. It was conducted on 24 January 2025 at DPS Tapi School campus. The experience of that night out was exhilarating. It was very interesting to learn facts about the stars, planets and constellations.

The day of our night camp started with boarding the bus. First I went to board my bus for night out and after that we saw other stops that were different from my bus routine. We reached school campus and kept your luggage in the dance room where we were going to sleep. We went to the ground for photograph and played various activities like adventure games, tent pitching and kabaddi. After playing these activities, we made our way to the school and refreshed ourselves and drank refreshing energy drink. After drinking it, we enjoyed

Bhelpuri and sandwiches. We shared those food items with each other. Then we played games and danced. We went upstairs and saw constellations, stars and planets. After that we had yummy dinner. Then we enjoyed the campfire, sang songs and danced. At midnight, we ate midnight snacks and went off to sleep. In the morning we played football and had delicious breakfast. After breakfast, we gave our feedback and went back home.

We faced challenges like sleeping without parents and slept with our friends. It was an exciting adventure and learning about different planets, stars and constellations. One of the most memorable adventurous night-camp.

Shaurya Bhabhor
IV-B



Leading from the Front: My Journey as a Captain

If I ever become the captain of Indian cricket team (Women's Team), I would always try my best to win the game. If I ever lose I would be a nice sportsperson and accept it quietly. If I don't win then I would not do cheating just because I lost the match.

I will always make sure that I encourage my team members and teach them something new. I will also do a lot of exercises to be fit so I can play well. I would also make sure that I am doing training properly. I would not be rude and listen to my team members also. I will try to learn something from defeat and try to figure it out so I may win next time. I would follow a proper diet and also exercise properly. I would try to be a good example for the team. I would work very hard and one day I will win the trophy. I would always give my teammates good suggestions or advice.

Even though I would become famous, I would not do show off or over attitude. I would try that I can be an inspiring personality. Also I would never lose my hope to win. By doing all this I will try to win.

Saadhya Gangrade
IV-B



My Source of Happiness

There are many people or gentle folks that respect others and their kindness to others makes them happy indeed. As usual my friends and family makes and supports me very much and every and in every single step. My friend supports me in my argument and also gives me a pleasant company to play, dance and win. My family members buy things and cooks much better food than others.

Things that makes me happy are mostly my friends and family. I love all of them dearly. My Table Tennis equipments and special game makes me fully happy and cheerful. When I am suffering from agony, these all things helps me to recover. My dream is to play till international level of this game and become a professional player and play for Gujarat team. Whenever I get to play this game, I practise and compete with others, even my father who already

achieved medals for the game. This game increases our strength, speed and reflexes. This game also improves the focus of my mind. This game is physically and mentally good. There is one more thing, that is my whole delightful life. God made me lucky that you cannot believe. I have every special thing in my life and my friendship makes me together and gives the feelings of togetherness. Mostly my achievements makes me a valiant and delightful person.

Naksh Shah
IV-B



INKYFINGA WRITES



The Thing That Lights Up My World - Reading

Happiness comes in many forms and for me nothing brings more joy than books. Reading makes me happy, it is an escape, a comfort and a source of endless learning. Every time I open a book, I step into a new world filled with adventure, knowledge and imagination.

Books makes me happy because they allow me to experience different emotions, cultures and perspectives. Whether it is a thrilling mystery, heart-warming story or an inspiring biography, each book has something unique to offer. When I read, I forget my worries and become fully immersed in the story. It is like travelling without leaving my room. Books help us for lifetime as a friend in future. Watching books happy makes me happy. My favourite author is William Shakespeare. Reading is a fantastic way to use our time.

Reading is good habit to develop or knowledge. Books make me happy, they often develop the important things which we can get from a book is our moral values. They inspire, entertain and educate me well. I know that books will always be my source of happiness in a world full of distractions. Books has always given me happiness and will always give me happiness.



*Riddhi Singh
IV-B*



The Real Hero – Major Somnath Sharma

Major Somnath Sharma gave the supreme sacrifice for our nation. If given a chance for keeping his memory alive I would like to be like him and share his history with you. he was born in Dadh, Kangra, Punjab India on 31 January 1923. He got army training after he was 15 years old. After he passed the training he served Indian Army as a Major. He died in 1937 at the age of 24 years. He had received the first gallantry award in India. The trophy he got was Param Vir Chakra. The major points that we learn from his life are:

Never give up - he had failed the military exam once but still he did not give up.

Bravery - the war in which she had died was a hard as it was against the British Empire and he saved thousands of people in the war by giving his sacrifice.

Always happy - even in his sad moments he was always happy and accepted everything happily that was happening to him. He is forgotten hero not many people know about him, but I hope this message helps him to be known all over the world because he had saved many people's life. If not the world then our nation should know him as he was the first gallantry award winner in India.



*Reyaaan Patel
IV-B*



A Brave Soldier – Major Shaitan Singh Bharti

My role model is Major Shaitan Singh Bharti. The values which I have learnt from his life are never give up and fight for our country. He was a great person. He took part in Naga Hills and Indian annexation of Goa. He was born on 1 December 1924 and died on 18 November

1962. His parents were awarded Param Vir Chakra award. He joined the Jodhpur academy after his graduation. He became the leader of team on 25 November 1955. He died because during the Chinese war as he was injured very badly. He sacrificed his life and dared to stand against adversity just for our nation. It was a shining star for us and he will be remembered. He was a great soldier and he would not be famous now-a-days. But he was like a gift from god to us. I am proud of my country that it has got many brave soldiers like Major Shaitan Singh Bharti.

*Hridan Limbani
IV-B*



INKYFINGA WRITES



The Robot Friend

One windy autumn day, while playing in the backyard, I heard a voice from the basement. Curiously, I went to investigate. To my utmost surprise, I discovered a robot—the very one my father had been building just yesterday.

I approached it cautiously and switched it on. Suddenly, it spoke: "I am Ruby! Nice to meet you. Please be my friend." Initially afraid, I mustered my courage, introduced myself, and suggested an expedition through the mountain ranges. To my delight, Ruby agreed. The next morning, I woke early and prepared my backpack with careful consideration. I packed breakfast—sandwiches and lemonade—along with water bottles, raincoats, and trekking sticks. Descending to the basement, I found Ruby waiting in the dim light. I switched on the lights, activated Ruby, and we began our adventure.

After walking for half an hour, we reached the woods. Beautiful, colorful flowers and birds surrounded us. In the distance, snow-capped mountains rose majestically. We sat down for breakfast; I enjoyed my sandwiches and lemonade, feeling a twinge of sadness that Ruby couldn't share the meal.

By afternoon, we decided to return home. Back in the basement, I switched off Ruby, bidding her farewell.

That night, as I lay in bed, I reflected on our connection to technology. How challenging would a day without the internet be? We've become so dependent on electronic devices that imagining life without them seems impossible. This adventure with Ruby made me realize the importance of using technology mindfully.

The expedition through the mountain ranges would forever be etched in my memory—a remarkable journey with an unexpected friend.

Mugdha Patel
V-A



The Wonders of Nature

Nature is itself a wonder!
You and me are a wonder!

You eat, sit, play, sleep, and wake up,
Isn't it a wonder?
Yes, it is a wonder!

The trees stand, the vines crawl,
The animals leap and birds fly!
Isn't it a wonder?
Yes, it is a wonder!

The mountains peak, the valley's edge,
The endless lands, the flowing air,
The running water and an erupting volcano,
Aren't they wonderful?
Yes, they are wonderful!

Life on Earth is wonderful,
Life itself is wonderful,
Nature is Wonderful!!!

Chris Zephaniah
V-A



Topsy-turvy Land

The day is dark, and night is bright.
The trees grow down, their roots in the sky.
Everything is upside down,
In the Topsy-turvy land.

The fishes swim on the land, and humans live in
the sea,

The sun revolves around the Earth.
The age is reversed, the grandfather becomes son,
In the Topsy-turvy land.

Erum. S. Halari
V-A



Limerick

A cat's name is hilly
She lives with her mother Lilly
They went on a walk
While walking they talk
As the cats are silly

Mahira Nagariya
V-A

INKYFINGA WRITES



Life on another Planet

Vylophia-4 was the name of a distant planet, located a million light years away. The planet was enormous and inhabited by aliens who consumed the fruits that grew there. To survive, these aliens had to exercise for 10 hours a day because their bodies were very weak. Despite having advanced technology, they had become overly dependent on robots and could no longer perform tasks independently.

However, their brains were incredibly powerful and intelligent. Before the advent of technology, their brainpower enabled them to accomplish everything. They engaged in activities like humans, such as farming, gardening, playing sports, and more.

On Vylophia-4, they always lived in peace and harmony, enjoying their days. They continue to flourish, and one day they will find us. When that day comes, I will meet them and ask them many questions. Until then, we must nurture our planet so that when they arrive, we can welcome them.

Vandit Gandhi
V-A



Kenning

Winter comer
Cold giver
Snowman maker
Tourist attracter
Land coverer
Ski slipperier
Children lover

-Who am I?

SNOW

Mugdha Patel
V-A



Limerick

A boy was fat
He hated a rat
And went to his leader
Climbed a ladder
And fell on a mat

Chris Zephaniah
V-A



Kenning

Face -wagger
Tail- wiggler
Door- scratcher
Dog- hater
Mouse- chaser
Night- walker
Sun- bather

- Who am I?
CAT

Almeer Siddiqui
V-A



The Magical Tree House

In a magical land, there was a beautiful tree house where fairies lived. The area around it was lovely, with colourful butterflies always flying around.

Anyone who entered the tree house would be taken to a different world. In this world, unicorns ran free, and the rivers were crystal clear. The people were always happy and kind.

At the end of the tree house, there was a broken part where you could see a waterfall and a special tree with magical words. The birds sang sweetly, and whatever you wished for would come true.

There was also a land of devils who wanted to take over. However, a powerful shield protected the tree house from them. The great lord had trapped the devils in a jail to keep everyone safe.

The tree house remained a place of hope and protection. Good-hearted people were safe inside, while devils tried to trick others. Some believed it was the end of the world, but the magical tree house continued to stand strong.

Naksh Parmar
V-A

INKYFINGA WRITES



Acrostic Poem

Adorable and fun
Difficult and daring
Very challenging
Entirely amazing
Not that easy
Thunderous
Uplifting things
Risky and rough
Empowering fears

Teertha Sonani
V-A



Acrostic Poem

Beneath the lights, he would gaze delight,
Unfolding it with joy that flight
Rare taste, crisp lettuce in sight,
Glistening sauce made each bite feel just right,
Every bite would dance make me forget fight,
Rich cheese melting, pure burger's might.

Tirth Joshi
V-A

I Learn Through Play:

My Brain's Awesome Adventure

Play is my secret superpower for learning! As Einstein said, "Playing is the highest form of research." By age five, 90% of my brain develops through fun activities. When I play

board games like chess or Ludo, or enjoy sports like cricket, I'm actually training my brain.

I'm a natural scientist! Every game is an experiment that builds my skills. Drawing, building with blocks, and playing help me discover new things. These activities light up different brain parts, boosting my motivation, confidence, and imagination.

Some of my most important life lessons don't come from boring classroom lectures. Playing teaches me teamwork, strategy, and creativity. When I play with blocks and clay, I might be discovering my future career - maybe I'll become a builder!

Playtime isn't just fun – it's how I learn languages, communicate better, and understand the world. Burning energy during play helps me sleep better at night. Every game is a chance to grow, learn, and explore!

Arpan Gupta
V-B



A Living Witness:

An Essay through the Eyes of a Tree"



I sprouted from a discarded seed, taking roots near Kolkata's bustling park. Kolkata, the city of joy, welcomed me with love and care

from a sapling to a tree. I am a 75-year-old mango tree. As I grew my branches spread out wide like welcoming arms. Birds built their nests, squirrels scampered up my trunk, weary eyes found rest beneath my canopy and giggling children played all around my sides.

Years flowed by the changing seasons when summer set in I became the most loved one of all the people visiting this park. Every summer I bore nice juicy fruits and children armed with sticks and baskets eagerly awaited an opportunity to collect some of my fallen fruit. Laughter and joyful shouts fill the air as families relish my sweet, plump tasty mangoes.

From the vantage point of the oldest tree in this ecosystem, I have witnessed generations pass, each finding solace and joy beneath my branches. I represent how all the life in this park is connected and dependent on one another. As I continue to grow and thrive, I remain a silent observer offering shade substance and a sense of wonder to all who come near me.

As the bond between humanity and nature grows, spanning decades, standing as a testament to the harmony that can co-exist between urban life and the natural world. As long as I stand, I will continue to serve as a reminder of the beauty and interconnectedness of all life in the park.

Shivraj Biswas
V-B



INKYFINGA WRITES




My Hero: Captain Vikram Batra - A True Inspiration

Captain Vikram Batra is my role model, a brave Indian Army officer who received the Param Vir Chakra for his extraordinary courage during the Kargil War in 1999. Born in Himachal Pradesh in 1974, he was known by the nickname 'Sher Shah' and his famous battle cry 'Ye Dil Mange More'. During the war, Captain Batra showed incredible bravery by helping to recapture Point 5140, a strategic hilltop, from Pakistani forces. He made the ultimate sacrifice, giving his life for his country.

The values I've learned from Captain Batra include:

- Courage to face challenging situations
- Leadership that inspires others
- Determination to achieve difficult goals
- Deep patriotism and love for the nation

His story teaches me that true heroes are not just brave, but also compassionate and committed to their team and country. I hope to develop similar qualities of leadership, bravery, and selflessness in my life. Captain Vikram Batra will always be remembered as a symbol of exceptional courage and national pride.



*Yajuvendra Rawat
V-B*



A Magical World

A magical world,
Where stories unfurl,
Magic on every corner and turn.

Here you can wish for anything,
Be as happy as kings,
Wish for a diamond ring.

Here you can live anywhere,
In a secret lair,
In a palace with flare.

This is a magical place,
With a base like a maze,
It can be related to space,
Or a whole new craze.

It is a magical sphere,
Here anything can appear,
These are most queer,
So, wish without fear.

*Shivraj Biswas
V-B*



Friendship



A voyage that carries smiling faces with gathering,
And generates feeling of sorrow while scattering.
Love, kind, happiness is the nature while sharing,
It's a real thought of true friendship.
It's a relationship where a person fights with care,
And even cry with smile.

It's a place to empty one's sorrows,
With a great trust of a friend,
That converts sorrows into happiness,
And stress into relaxation.
It's a real thought of true friendship.

*Maanya Shah
V-B*



Kenning

Birds- singing
Nature-colouring
Dew-dropping
Flowers-blooming
Sun- rising
Butterflies- flying
Beautiful- awaking
Strawberries-growing
People- walking

**-Who am I?
SPRING**

*Aarohi Suman
V-B*

INKYFINGA WRITES

The Secret Door



Once upon a time, my family and I were moving to a new house. It was huge and filled with numerous doors. My father mentioned that some kitchen appliances had been left behind by the previous owners. My mom, dad, and sister went to the shop and asked me to stay at home. I agreed, feeling curious to explore the house.

I began my tour on the ground floor. There was a beautiful kitchen, dining hall, bathroom, and drawing room. On the first floor, there were bedrooms, a storeroom, a bathroom, and a veranda.

When I reached the terrace, I discovered many plants. While exploring, I noticed another door. I was astonished. Opening the door revealed a jaw-dropping view of a fairyland. There were countless rose beds and flowing fountains. I entered the land and felt a warm sensation. Stardust covered the leaves and grass like dew. I saw a slide in an old oak tree and decided to use it.

Sliding down, I saw all the animals walking on two legs and talking to each other. It felt strange. Suddenly, a parrot invited me to join them. I hesitated, but it assured me they wouldn't harm me. I joined them and danced with them.

Eventually, I remembered that I had to return home. The fairy swished her wand, and I was back in my house. I fell asleep with a nice dream, ending an unforgettable day.

*Aarohi Suman
V-B*

The Talking Animals



Talking to animals would be a fun and exciting experience. It would allow us to feel their emotions, thoughts, and understand their feelings. Their emotions reveal that they are often in distress—scared, frightened, and angry.

The reason for their suffering is the impact of human activities. Humans have been destroying their homes, shelters, and nests. We have been exploiting them for our needs, using their feathers, bones, skins, teeth, and more. As a result, many species of animals are diminishing day by day.

God created them to live their lives, but we, humans, are destroying them. We have no right to hurt or kill them. They provide us with numerous benefits, just like trees do. Let's come together to understand their feelings and protect them.

*Iram Garasiya
V-B*



Acrostic Poem

Sky's vast expanse
Planet orbiting
Asteroids falling
Celestial collisions
Exciting to know

*Jaymeet Mandaviya
V-B*



Kenning

Secret sharer
Happiness provoker
Loyal actor
Close supporter
Comedy maker
Belief helper
Thought distributor
Mistake corrector

**Who am I?
FRIEND**

*Yajuvendra Rawat
V-B*

LEKHNI - हिंदी



मेरा प्रिय खेल - फुटबॉल

खेल हमारे शरीर और मन के लिए बहुत जरूरी है। इस से हमारी कसरत होती है। मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। यह खेल एक बड़े मैदान में खेला जाता है। इस में दो टीम होती हैं। जिस में 1111 खिलाड़ी होते हैं। मुझे मेरे दोस्तों के साथ शाम को फुटबॉल खेल के बहुत आनंद आता है। मेरा प्रिय खिलाड़ी रोनाल्डो है।

Arfan Kaludi
I-A



मेरा प्रिय खेल

मेरा प्रिय खेल पकड़म पकड़ाई है। इस खेल में दस लोग खेल सकते हैं। इस खेल में सब एक-दूसरे को पकड़ते हैं। मुझे पकड़म-पकड़ाई पसंद है, क्योंकि हमे उसमें दौड़ना होता है। पकड़म-पकड़ाई में दौड़ने से हमारा शरीर फुर्तिला होता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं अपने दोस्त को पकड़ती हूँ। पकड़म-पकड़ाई हमे मैदान में खेलना चाहिए। मैं पकड़म-पकड़ाई में सबसे तेज दौड़ती हूँ।

Prachi Kashyap
I-A



मेरा प्रिय पशु

गाय एक पालतू पशु है। गाय हमारी माता है। गाय के चार पैर होते हैं। गाय कि दो आँखें और दो कान होते हैं। गाय के दो सींग और एक लंबी पूँछ होती है। गाय घास और भूसा खाती है। गाय हमें दूध देती है। गाय एक उपयोगी पशु है।

Srinika Singh
I-A



मेरा प्रिय खेल

मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। यह गेंद और बल्ले से खेल जाता है। इस में 11 खिलाड़ी की दो टीम होती है। एक टीम फिल्डिंग और दूसरी टीम बैटिंग करती है। यहाँ हार-जीत का निर्णय बनाए गए संख्या से होता है जो बहुत रोमांचक होता है। हर शाम मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। क्रिकेट से हमारा शरीर फिट रहता है। यह अंतरराष्ट्रीय खेल है। मेरा मनपसंद खिलाड़ी धोनी है।

Pratham Mittal
I-A



मेरी माँ

मेरी माँ का नाम शीतल हैं। वह मुझे बहुत प्यार करती है। मैं मेरी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। मैं मेरी माँ को मदद करता हूँ। वह मेरा ध्यान रखती है। वह मुझे कहानी सुनाती है। वह हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। वह हमारी प्रथम गुरु होती है। वह मेरा खयाल रखती है। वह हमें खिलोने लाती हैं। माँ सबसे अच्छी हैं। वह हमारे लिए खाना बनाती हैं।

Diyan Gabani
I-A



मेरा प्रिय पशु

मेरा प्रिय पशु गाय है। गाय देखने में बहुत सीधी और शांत होती है। उसके चार पैर, दो आँखें और दो कान होते हैं। वह घास खाती है। गाय हमें दूध देती है। गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। सभी लोग गाय से प्यार करते हैं। गाय को हमारी माता कहा जाता है।

Maheer Pastagiya
I-B

LEKHNI - हिंदी



मेरा प्रिय खेल



मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। खेल से हम ताज़ा महसूस करते हैं। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। मैं हर दिन क्रिकेट खेलता/खेलती हूँ। यह दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें गेंद और बल्ले का उपयोग होता है। मुझे क्रिकेट खेलकर बहुत अच्छा लगता है।

*Yashika Shah
I-B*



हाथी



मेरा प्रिय प्राणी हाथी है। हाथी अपनी विशालता और शाकाहारी स्वभाव से हमें आकर्षित करता है। हाथी बहुत ही शांतिपूर्ण जानवर है। वह अपने परिवार के साथ बहुत ही प्यार से संयम में रहता है। हाथी की स्मृति बहुत अद्भुत होती है। हाथी की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उनके समाज और परिवार के महत्व के बारे में सीखना चाहिए। हाथी को गज और गजानन के नाम से भी जाना जाता है।

*Pal Modi
I-B*

मेरी माँ



मेरी माँ का नाम गरिमा है। वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। वह मेरे लिए खाना बनाती हैं और मुझे खिलाती हैं। माँ मुझे कहानी सुनाती हैं और मेरे साथ खेलती हैं। वह मेरे कपड़े धोती हैं और मुझे तैयार करती हैं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ सबसे अच्छी हैं।

*Garvit Trivedi
I-B*

अगर मैं पक्षी होता



अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़कर बादलों को छूता। मैं आसमान में ताज़ी हवा का आनंद लेता। मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर करता और शांति का अनुभव करता। मैं अपने परिवार के साथ मानसरोवर घूमने जाता और बहुत सारे दोस्त बनाकर खेलता। मैं प्रकृति का आनंद लेता और रात को दाने खाकर सो जाता फिर सुबह को गाना गाकर सबको उठाता। अगर मैं पक्षी होता तो ना तो मुझे कोई चिंता थी और ना तो कोई जिम्मेदारी थी।

*Dhairya Shah
II-B*



मेरा प्रिय खिलाड़ी



डोममराजु गुकेश भारत के एक शतरंज गैडमास्टर है। वह दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र में शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था। उनका जन्म 7 मई 2006 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। उनकी सफलता ने भारत में शतरंज को बढ़ावा दिया। गुकेश एक प्रेरणादायक युवा प्रतिभा हैं।

*Heyansh Patel
II-B*



मेरा प्रिय खिलाड़ी



मेरा प्रिय खिलाड़ी साईना नेहवाल है। साईना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। उनका जन्म 27 मार्च 1990 में हुआ था। उनके पिता 'डॉ हरवीर सिंह एक वैज्ञानिक हैं। उनकी माँ 'उषा नेहवाल' पूर्व बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं। साईना नेहवाल बचपन से ही बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद करती थी। उन्होंने बैडमिंटन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। हर पल अपने टारगेट के लिए सोचा। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे अभ्यास किया और कई बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की और भारत का नाम रोशन किया।

*Sanvi Shree
II-B*



एक दिन चाँद पर



मैं एक रॉकेट में बैठ चाँद पर गई। वहाँ बहुत शांति थी। मैंने चाँद की मिट्टी से एक सुंदर महल बनाने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी उड़ गई। फिर मैंने तारे गिनने का सोचा पर वह बहुत ज़्यादा थे। मैंने चाँद पर अपना नाम लिखना चाहा पर वहाँ कोई कागज़ और कलम नहीं था। फिर मुझे घर की याद आयी और मैं वापस आ गई।

*Mayra Dihora
II-A*

LEKHNI - हिंदी

बड़ों का सम्मान करे



हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। कहा जाता है कि हम भले ही जीवन में सफल हो जाए परंतु हमारे बड़ों का आशीर्वाद अगर साथ न हो तो उनका प्यार अगर न हो तो हम अधूरे हैं। बड़े व्यक्ति जो हमारी माँ-बाप, दादा-दादी, काका-काकी, नाना-नानी, भैया, शिक्षक इन सब का आदर सम्मान करने से हमें जीवन की ऊँचाई को छूने में और सफलता मिलेगी। इसलिए हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान देने से प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ने से आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलने से अत्यधिक सफलता मिलती है।

मोक्ष आहीर
कक्षा : तीन 'अ'

पशु-पक्षियों के प्रति हमारा कर्तव्य



हमें अपने घरों के आस-पास मिट्टी के गमलों में पानी और पक्षियों के लिए दाने डाल कर रखने चाहिए। जिससे वह आसानी से अपना और उनके परिवार का पेट भर कर खुशियाँ मना सके। हमें कभी भी मार्ग पर धूमते हुए पशु को चिढ़ाकर उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, तो हमें उसे तुरंत ही उन्को रोक देना चाहिए। पशु-पक्षी को हमें हर मौसम में सुरक्षा देनी चाहिए। जैसे सर्दी का मौसम है तो हमारे घर के आस-पास कोई भी कुत्ते या विल्ली है तो उसे एक छोटा सा गड्ढा बना कर उस पर सुलाना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो बहुत ज्यादा गर्मी होने से उन्हें प्यास भी ज्यादा लगती है तो हमें जगह-जगह पर पानी भरा बर्तन रखना चाहिए और अगर बारिश का मौसम है और तेज़ बारिश की वजह से जगह-जगह पानी भर जाता है तो उनको वहाँ से लेकर सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। पौष्टिक खाना खिलाना चाहिए।

स्वरा धेल
कक्षा : तीन 'अ'

पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त



पेड़ धरती को हरा-भरा बनाते हैं। पेड़ हमारे लिए आवश्यक हैं। पेड़ प्रकृति की वो देन है जिसका कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। पेड़ कार्बनडाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ हमें फल, फूल और सब्जियाँ देते हैं। पेड़ हमें बहुत सी औषधियाँ भी देते हैं। पेड़ पर कई जीव-जन्तु अपना घर बनाते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए। पेड़ों की कमी से धीरे-धीरे प्रकृति संतुलित विगड़ता है। पेड़ हमारे वातावरण को स्वस्थ रखता है यदि पेड़ नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। पेड़ प्रदूषण को बढ़ने से रोकता है। पेड़ प्रकृति को सुंदरता प्रदान करते हैं। हम सब को पौधे लगाने चाहिए और उनको पानी देना चाहिए। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन बहुत ही कठिनाई में आ सकता है। मनुष्यों का अस्तित्व समाप्त भी हो सकता है। पेड़ धरती को स्वर्ग बनाते हैं।

शौर्य राना
कक्षा : तीन 'अ'



भारत का राष्ट्रीय पशु : बाघ



बाघ अपनी सुंदरता, ताकत, चपलता और अपार शक्ति के संयोजन से भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम 'पैथेरा टिगरिस' है। बाघ जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। यह श्रीलंका, तिब्बत और अंडामान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। बाघ विल्ली प्रजाति का जानवर है। बाघ के दाँत बहुत तेज़ तथा पंजें मज़बूत होते हैं। बाघ की दहाड़ वह काफ़ी तेज़ होती है। बाघ की सुनने तथा सूँघने की शक्ति काफ़ी तेज़ होती है। बाघ बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली है। बाघों की कुल संख्या लगभग 17 सौ हैं।

देवांश पटेल
कक्षा : तीन 'अ'



बड़ों का सम्मान करें



बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बड़ों का अनुभव हमें सही राह दिखाता है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बनाता है। बड़ों की बात ध्यान से सुनी चाहिए। हमें उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जब वे बोले, तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। बड़ों की सेवा से हमें आत्मिक शांति मिलती है। बड़ों का आदर करें, खुश रहें।

मिस्सा दामा
कक्षा : तीन 'अ'

पेड़ लगाओ हरियाली लाओ



पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। वे हमें शुद्ध हवा, फल, लकड़ी और दवाइयाँ देते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। पेड़ पर्यावरण को भी स्वच्छ और हरा-भरा बनाते हैं। आजकल अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस वातावरण में मौसम बदल रहा है और धरती गर्म हो रही है। अगर समय पर पेड़ नहीं लगाए तो भविष्य में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेड़ लगाने से कई फायदे होते हैं। वे पक्षियों के घर होते हैं और वे हमें ठंडी और ताज़ी हवा देते हैं। पेड़ बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोक देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हर बच्चे और बड़े को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि वे हर साल कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएगा। आओ सब मिलकर यह संकल्प ले पेड़ लगाए पर्यावरण बचाएँ।

“पेड़ लगाओ, हरियाली लाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ।”

हयान पटेल
कक्षा : तीन 'अ'

LEKHNI - हिंदी

भारतीय प्रतीक



भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, सारनाथ का अशोक स्तंभ है। यह प्रतीक, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस प्रतीक में, केवल तीन सिंह दिखाई देते हैं, चौथा सिंह दिखाई नहीं देता। इस प्रतीक के नीचे देव नागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' लिखा है। इसका अर्थ है, सत्य की ही विजय होती है। इस प्रतीक में, चक्र के दाईं और बाईं ओर और घड़ी की सुई की तरह है। इस प्रतीक के आधार पर भारत के राष्ट्रध्वज के केंद्र में अशोक चक्र होता है। इस प्रतीक का इस्तेमाल भारत सरकार के अधिकारी लेटर हेड पर किया जाता है। यह प्रतीक सभी भारतीय मुद्राओं पर भी होता है। यह प्रतीक, पासपोर्ट पर भी होता है। इस प्रतीक का इस्तेमाल अधिकारी पत्राचार में किसी व्यक्ति या निजी संगठन को करने की अनुमति नहीं है। इस प्रतीक का इस्तेमाल कई जगहों पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किया जाता है।

राज कलवानी
कक्षा : तीन 'ब'

होली



होली हमारे भारत देश का प्राचीन और प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को हँसी, खुशी तथा रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। भारत में होली का उत्सव अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के लिए सूखी लकड़ी, घास और गोबर का ढेर जलाकर गाना गाया जाता है। होलिका दहन के पीछे एक पौराणिक कथा है। भगवान विष्णु ने इस दिन अपने भक्त प्रह्लाद को असुर हिरण्यकश्यप और होलिहा के दंड से मुक्त किया था।

विहाना गढ़िया
कक्षा : तीन 'ब'



पशु-पक्षी के प्रति हमारे कर्तव्य



पशु-पक्षी हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग हैं। उनकी सुरक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। पशु-पक्षी भी मनुष्य की कई तरह से मदद करते हैं। इस धरती पर जितना अधिकार मनुष्य का है उतना ही पशु-पक्षियों का भी है। लेकिन दुख की बात है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के सामने यह बातें भूल चुका है। पशु-पक्षी का ना रहना या लुप्त हो जाना मनुष्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो भविष्य में हमें अनुभव होगा कि पशु-पक्षियों के नहीं रहने से हम कितने बड़े संकट में आ गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मनुष्य के लिए बहुत बड़ी और गंभीर चिंता का विषय है कि इन पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कौन नहीं जानता कि चीते और गिद्ध मृत पशु-पक्षियों को अपना आहार बनाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं। पशु-पक्षियों का संरक्षण यदि करना है तो सबसे पहले हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। जंगलों का विनाश करने से रोकना होगा, पशु-पक्षियों को संरक्षण के लिए प्रदूषण की रोकथाम करना भी ज़रूरी है। यह समस्या न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

श्रेय पटेल
कक्षा : चार 'अ'

पेड़ लगाओ हरियाली लाओ



पृथ्वी सौरमंडल का अकेला एक ऐसा ग्रह है। जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी मनुष्य के जीवित रहने के लिए सभी मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परंतु आज पृथ्वी बहुत सी समस्याओं से जूझ रही है जिनमें प्रदूषण और ग्लोबल वॉर्मिंग की समस्या प्रमुख है। पृथ्वी को बचाने के लिए हमें पेड़ों को काटने से रोकना होगा। पेड़ प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है और हमारी पृथ्वी को हरा-भरा बनाती हैं। पेड़ हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। पेड़ हमें छाया और सुरक्षा प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं। पेड़ों पर कई पक्षी घोंसला बनाते हैं। पेड़ वर्षा करने में सहायता करते हैं और पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रखते हैं। पेड़ों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। पेड़ हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं।

“पेड़ लगाइए जीवन बचाइए,
इस धरती को स्वर्ग बनाइए”

दानिश तलरेजा
कक्षा : तीन 'ब'



दीपावली



हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में मुझे दीपावली का त्योहार सबसे अधिक पसंद है। दीपावली का त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। सभी लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। दीपावली का त्योहार अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। दीपावली रोशनी का त्योहार है क्योंकि इस दिन चारों तरफ़ रोशनी की जाती है। घर में हर जगह दीपक लगाए जाते हैं। दीपावली की तैयारियाँ लोग एक महीने पहले से ही करने लगते हैं। सभी लोग घरों की साफ़-सफ़ाई करते हैं। दीपावली पर घर में सब लोग नये कपड़े खरीदते हैं। रंगोली, मिठाई, दीपक, लाइटों और पटाखों के साथ सजावट के सामान की खरीदी करते हैं। दीपावली में मुझे सबसे ज़्यादा रंगोली बनाना पसंद है।

रीवा पटेल
कक्षा : तीन 'ब'

LEKHNI - हिंदी



पेड़ लगाओ हरियाली लाओ

हम हमेशा कहते हैं कि गाँव में रहने वाले लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। ऐसा केवल ग्रामीण इलाकों में पेड़ों और हरियाली के मौजूदगी के कारण ही संभव है। शहर में लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी हो गया है कि बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जाए क्योंकि हरियाली की कमी महसूस होने लगी है। लोगों को शुद्ध वायु भी नहीं मिल रही है। जिसके कारण तरह-तरह की बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। हर इंसान को शुद्ध हवा लेने के लिए अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने चाहिए। पेड़-पौधों से हरियाली बढ़ेगी और हवा भी ताज़ा मिलेगी। पेड़ों की वजह से वारिश हो रही है और मौसम का संतुलन बना रहता है। हरियाली से ही ज़िंदगी में खुशहाली है। पेड़ों से ही ज़िंदगी है। पेड़ों की सुरक्षा करना हम सभी की ज़िम्मेदारी है।

निहान लिंबाचिया
कक्षा : चार 'अ'



भारतीय त्योहार

भारत विभिन्न त्योहारों का देश है। जो समुदाय और धर्मों को खुशी और भक्ति से भर देता है। भारत में अनेक त्योहार वर्ष भर मनाए जाते हैं। नवरात्रि पूरे भारत में मनाए जाने वाले भव्य त्योहारों में से एक है। नवरात्रि नाम का अर्थ है - 9 रातें। नवरात्रि एक हिन्दू त्योहार है जो हर साल अक्टूबर या नवंबर में या हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीने में मनाया जाता है। इस अवसर पर माँ दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि ऐसा त्योहार है जो 9 दिनों तक चलता है। इस त्योहार को बहुत धूम-धाम से मनाया जाता है। यह बंगाल और अन्य पूर्व राज्य में 'दुर्गापूजा' के नाम से पहचाना जाता है। यह त्योहार अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। उपवास रखते हैं वह भी त्योहार का हिस्सा है। नवरात्रि में पूरी रात नृत्य और संगीत के साथ जीवित हो उठती हैं। लोग देवी की मूर्ति के चारों ओर गरवा करते हैं। हम दुर्गा माँ के 9 रूपों शैलपुत्री, वस्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धित्री की पूजा करते हैं। सभी त्योहार की तरह नवरात्रि भी एक सामाजिक अवसर है कई अन्य हिन्दू त्योहारों की तरह नवरात्रि भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।

युनय पटेल
कक्षा : चार 'अ'



भारत का राष्ट्रीय प्रतीक

भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह प्रतीक 26 जनवरी, 1950 को अपनाया गया था। इसमें चार सिंह भी हैं जो शक्ति, साहस और निडरता का प्रतीक हैं। सिंहों के नीचे एक चक्र है जो धर्म और अन्याय का प्रतीक है। चक्र के नीचे एक घोड़ा और एक बैल है जो गति और शक्ति का प्रतीक हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे एक मंत्र 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। यह मंत्र 'मंडक उपनिषद्' से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक का डिज़ाइन 'ब्रिटिश सरकार' द्वारा डिज़ाइन किए मूल के प्रतीक से प्रेरित है। इसमें 3 सिंह दिखाई देते हैं जबकि चौथा सिंह पीछे से दिखाई देता है। सिंहों के बीच में एक चक्र है जिसे 'धर्म चक्र' कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग सरकारी दस्तावेज़, मुद्राओं और अन्य आधिकारिक सामग्री के लिए किया जाता है। यह भारत की एकता, शक्ति और साहस का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। यह प्रतीक हमें देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। राष्ट्रीय प्रतीक का महत्व हमारी संस्कृति और इतिहास में बहुत अधिक है।

शौर्य भाभोर
कक्षा : चार 'ब'



हरियाली का महत्व

हमारे जीवन में हरियाली का बहुत अधिक महत्व है। हरियाली से हमें जीवन के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन मिलती है। हरियाली से हमारा पर्यावरण अच्छा होता है। हरियाली पाने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ हमें हरियाली, फल और ऑक्सीजन आदि देते हैं। पेड़ मकान के लिए लकड़ी और दवाई देते हैं। पेड़ के कारण वारिश भी होती है जो मृष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ पशु-पक्षी को घर और खाना देते हैं। आज के समय में पर्यावरण के असंतुलन की वजह से जीव और पृथ्वी के ऊपर खतरा आ चुका है। देश-विदेश सभी पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं। अतः हरियाली के लिए पेड़ लगाना ज़रूरी है। कहा जाता है "पेड़ लगाओ हरियाली पाओ।" आज के अवसर पर मैं भी आप सभी से आदरपूर्वक विनती करती हूँ कि आप सब भी वृक्षारोपण में अपना योगदान दें।

फ़्रेया गहिया
कक्षा : चार 'ब'



होली

होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार मार्च के महीने में मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। यह आनंद, उल्लास और मौज-मस्ती का त्योहार है। होली से शरद ऋतु खत्म होती है और वसंत ऋतु शुरू होती है। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। इस त्योहार से संबंधित एक प्रसिद्ध कहानी है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था इसलिए उसके पिताजी उसे मार देना चाहते थे। राजा ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को मार डालने को कहा। होलिका को ईश्वर द्वारा आग में नहीं जलने का आशीर्वाद प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका मर गई। होली से एक दिन पहले 'होलिका दहन' करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। लोग एक-दूसरे के गले लगते हैं और होली की शुभकामनाएँ देते हैं। होली के दिन घरों में तरह-तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। होली की खुशी में सब लोग आपसी वैर और मन-मुटाव को मिटा देते हैं। मुझे यह त्योहार बहुत पसंद है। होली का त्योहार हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है।

श्रीजा कोलदिया
कक्षा : चार 'ब'



LEKHNI - हिंदी



पेड़ लगाओ हरियाली लाओ

'पेड़ लगाओ हरियाली लाओ' हमें यह सिखाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाकर हरियाली बढ़ानी चाहिए। पृथ्वी पर प्रदूषण कम हो जाए और हरियाली बढ़ जाए, यही सबका सपना है। पेड़-पौधे चिड़िया के लिए घर, हमें छाया, फल, सब्जियाँ और दवाइयाँ आदि देते हैं। हम से कुछ लिए बिना वारिश और धूप सहकर हमें मदद करते हैं। हम अपनी पृथ्वी पर पेड़-पौधे लगाकर हरियाली कर सकते हैं। पेड़ हमारे अस्तित्व के साथ-साथ पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये भी महत्वपूर्ण हैं। पेड़ों के बिना जीवन असंभव है। पेड़ हमें जीवन के 2 महत्वपूर्ण घटक ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं। आज भी हम पहले से अधिक पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। पेड़-पौधे हरियाली बढ़ाकर प्रदूषण कम करते हैं। हम पेड़-पौधों का ध्यान रखें और पौधे को एक बड़ा पेड़ बनने की जरूरतों को पूरा करें। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पेड़-पौधे पाए जाते हैं। पेड़-पौधों की वजह से पृथ्वी हरी-भरी है और मनुष्य का जीवन आसान हो गया है। मनुष्य और पेड़-पौधों का संबंध बहुत पुराना है और हमें इस संबंध को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहिए। ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी पेड़-पौधे के महत्व को समझ सके क्योंकि वृक्ष ही पृथ्वी का श्रृंगार करते हैं।

मुक्ता महतो
कक्षा : चार 'ब'



पानी बचाओ

धरती माँ की कोख से निकली
जल ही जीवन की अनमोल निधि
बूँद रिस-रिस कर खोती है
चुपचाप सब सह लेती है।
खेतों में सिंचाई, वेवजह बहती,
नदियाँ सूखती पीड़ा सहती
बरसात का पानी बेकार जाता,
भूगर्भ जल स्तर निरंतर घटता।
टूटी हुई पाइप रिस-रिस कर बहती
वर्बादी होती है पानी की कीमत नहीं समझती।
छत पर पानी एकत्रित करना
पौधों को सींचना बूँद-बूँद बचाना
जागरूक होना सबको चाहिए
जल बचाओ जीवन बचाओ

धान्या किशोर
कक्षा : पाँच 'अ'



भारतीय त्योहार

भारत विभिन्न धर्मों के साथ अनेकता में एकता का देश है। भारत में विभिन्न धर्मों के त्योहारों का अपना एक स्थान है। भारतीय त्योहारों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार और भारत के मौसमी त्योहार। महाशिवरात्रि, नवरात्रि, होली, दीवाली, नवरोज़, मोहरम, बकरी ईद, महावीर जयंती, रमजान, रक्षाबंधन, भाईदूज और होली आदि धार्मिक त्योहार हैं। गांधी जयंती, वाल दिवस और शिक्षक दिवस आदि राष्ट्रीय त्योहार हैं। शरद पूर्णिमा और वसंत पंचमी जैसे त्योहार मौसमी त्योहार हैं। हमारे जीवन में त्योहारों का बहुत महत्व है। सभी त्योहारों की अपनी-अपनी महत्ता होती है। जिससे संबंधित सब समुदाय एक साथ मिलकर भाग लेते हैं। सभी त्योहार अपने जन्मकाल से लेकर अब तक उसी पवित्रता और सात्विकता की भावना को संजो कर रखे हुए हैं। सरकार कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों पर अवकाश की घोषणा करती है। कुछ निजी कंपनियाँ भी स्वयं अवकाश घोषित करती हैं। त्योहारों के मौके पर सोने और कपड़ों की खरीदारी बढ़ जाती है। सभी त्योहार किसी ना किसी रूप से आस्था से जुड़े हुए हैं। उस मार्ग पर चल हम उन अच्छाइयों को याद करते हैं। भगवान राम की रावण पर विजय बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का त्योहार हिरणकश्यप का प्रह्लाद पर किए गए अत्याचार के विरोध का प्रतीक है। भारत के कई राज्यों में अलग-अलग त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना उत्पन्न करते हैं।

दिव्या प्रजापति
कक्षा : चार 'ब'



कृत्रिम बुद्धिमत्ता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक प्रकार की तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। ये तकनीक मशीनों को सीखने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जैसे स्वास्थ्य सेवाएँ, वित्त शिक्षा और परिवहन। यह तकनीक मशीनों को डेटा का विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और यह तकनीक हमारे जीवन को और भी आसान और सुविधाजनक बना सकती है। यह तकनीक हमें अपने कामों को और भी कुशलता से करने में मदद करती है। इसके उपयोग से हम अंतरिक्ष को गहराई से समझ सकते हैं। हम इस तकनीक से नए गृहों और तारों की खोज कर सकते हैं। इस तकनीक का हम भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

वंदित गांधी
कक्षा : पाँच 'अ'



दिव्यांग सशक्तिकरण

हर साल तीन दिसंबर में 'अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस' मनाया जाता है। इसे संयुक्त राज्य ने 1992 में शुरू किया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य शारीरिक तथा मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना और उनका मनोबल बढ़ाना था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकार दिलाना और उनकी समस्या पर ध्यान देना है। विकलांगता जन्मदात्री होती है या इसका कारण कोई दुर्घटना भी हो सकती है। विकलांगता एक समस्या है जिसका सामना विश्व भर के लोग कर रहे हैं। विकलांगता शारीरिक तथा मानसिक होती है। समाज में विकलांग लोगों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना ज़रूरी है। दिव्यांग व्यक्ति आम इंसान की तरह समाज का एक अंग है तथा सम्मान का पात्र है। दिव्यांग के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएँ बनाई हैं। उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। दिव्यांग जनों के लिए रोज़गार के अधिक अवसर प्रदान करना और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग की जगह 'दिव्यांग' शब्द इस्तेमाल करने के लिए कहा था।

मुग्धा पटेल
कक्षा : पाँच 'अ'

LEKHNI - हिंदी



लोक कला

भारत की लोक कला का इतिहास बहुत पुराना है। यह कला ग्रामीण जीवन, संस्कृति और परंपराओं का एक अहम हिस्सा है। लोक कला का मतलब है, वह कला जो लोगों द्वारा उनके घरों और आसपास के वातावरण में मनाई जाती है। यह कला साधारण होती है लेकिन उसमें गहरी भावना और रचनात्मकता होती है। लोक कला विभिन्न राज्यों और समुदाय में अलग-अलग रूपों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की मीनाकारी, पश्चिम बंगाल की पटचित्र कला प्रसिद्ध हैं। इन कलाओं में प्राकृतिकताओं इस्तेमाल किया जाता है और हाथों से बनाया जाता है। इस प्रकार की लोक कला में चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तकला और कई कलाओं का विकास देखने को लिए मिलता है।

स्वरा मालविका
कक्षा : पाँच 'अ'



कृत्रिम बुद्धिमत्ता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक तकनीक है, जिससे कंप्यूटर और रोबोट इंसान जैसी सोच और विचार विकसित करते हैं। इसका मतलब है कि मशीनें अब अपनी सोच को बेहतर बनाने में सक्षम हैं। जैसे हम इंसान सोचते हैं वैसे ही मशीनें भी डेटा का विश्लेषण कर सकती हैं और सही निर्णय ले सकती हैं। आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कई जगह पर हो रहा है जैसे स्मार्टफोन में, गाड़ियों में, यहाँ तक स्कूलों में भी। उदाहरण के तौर पर गूगल सर्च इंजन, सिरी और एलेक्सा जैसे ऐप्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। ये ऐप्स हमारे सवालों का उत्तर देते हैं और हमारी पसंद के अनुसार काम करते हैं लेकिन हमें उनका उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाया जा सके और हमारी गोपनीयता की सुरक्षा हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जीवन को और बेहतर बना सके।

कयान मिश्रा
कक्षा : पाँच 'अ'



सौर ऊर्जा

सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को 'सौर ऊर्जा' कहते हैं। सूर्य के पास बहुत प्रकाश और गर्मी है। अगर सूर्य से प्राप्त होने वाली सारी रोशनी को बिजली में बदल दिया जाए तो पूरे साल बिजली की आपूर्ति हो सकती है। देश में बिजली का उत्पादन कोयला तथा जल से किया जाता है। सूरज की रोशनी धरती पर कभी न खत्म होने वाला संस्थान है। भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भरपूर मात्रा में बिजली मौजूद हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाती है। ये वरसात के मौसम भी बिजली उत्पादन करती है गाँवों में इसकी वजह से लोगों को 24 घंटे बिजली का सुख प्राप्त होता है। इसको लगाने से बिल भी कम आता है। जब तक सूरज रहेगा लोगों को इसका लाभ हमेशा मिलता रहेगा।

जान्हवी पटेल
कक्षा : पाँच 'अ'



अंतरिक्ष यात्रा

अंतरिक्ष यात्रा एक सपना है छोटे से बचपन से हम देखते हैं तारे, चंद्रमा और सूर्य की रोशनी हमें आकर्षित करती है अंतरिक्ष की ओर रॉकेट की छाती, से हम उड़ते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को हम तोड़ते हैं अंतरिक्ष में खुले आसमान में हमें अनुभव होता है एक नया संसार, जहाँ हम जीवन को पाते हैं तारों के बीच हम यात्रा करते हैं नए ग्रहों की खोज करते हैं अंतरिक्ष की यात्रा पर हमें पथर मिलते हैं लेकिन हम हार नहीं मानते और आगे बढ़ते जाते हैं अंतरिक्ष यात्रा एक महत्वपूर्ण कदम है मानव की तरक्की का हम अंतरिक्ष में नए संसार की खोज करते हैं

स्तुति वसुधारा
कक्षा : पाँच 'अ'



आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया के असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया है। आज जो काम हम कई मनुष्य द्वारा कर रहे हैं। वह अकेला एक मशीन कर सकता है। वर्तमान में बच्चों को ए आई को समझना ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में वह ही काम आएगा। ए आई शिक्षा और मनोरंजन में काम आता है। इसकी सहायता से काम जल्दी और आसान हो जाता है। हमारे सामान्य जीवन में भी स्मार्ट डिवाइस, सोशल मीडिया और पर्सनल असिस्टेंट के साथ-साथ हमारी दिनचर्या को बेहतर बना रहा है। ए आई तेज़ी से वर्तमान में परिवर्तन ला रहा है। ए आई ने किसी भी व्यवसाय को बदलने के साथ हमारी नौकरी की भूमिका बदल दी है। आज के ज़माने में गाड़ियाँ भी ए आई पर आधारित होती हैं। मानवीय कार्यों को बढ़ाने की अपनी क्षमता के कारण ए आई कंप्यूटर साइंस में एक लोकप्रिय क्षेत्र बन गया है। ए आई सीखने से प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल्स पैदा होती है। आज हर बच्चा और युवा ए आई पर निर्भर है।

दर्श घंटीवाला
कक्षा : पाँच 'अ'

LEKHNI - हिंदी



कृत्रिम बुद्धिमत्ता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए कंप्यूटर को रोबोट या सॉफ्टवेयर की तरह सोचने में सक्षम बनाया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से विभिन्न ध्वनियों को पहचाना जा सकता है, कविताएँ लिखी जा सकती हैं और डेटा आधारित भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल स्वास्थ्य देखभाल में भी किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से रोगी का डेटा और अन्य जानकारी का विश्लेषण करके डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारियों को बेहतर निदान और उपचार सुझाव दिए जा सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ उदाहरण हैं सीरी, एलेक्सा और डिजिटल एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स।

यशुवेंद्र रावल
कक्षा : पाँच 'ब'



आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी तरीके से विकसित की गयी बौद्धिक क्षमता और इसके जनक 'जॉन मैकार्थी' हैं। विज्ञान का यह भाग सब डिवाइज इसकी जड़ें पूरी तरह से कंप्यूटिंग सिस्टम पर आधारित है। इसका अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और मानवीय क्षमता और मैनुअल काम को कम कर सकें। सीरी, एलेक्सा, टैसला कार और अमेज़न आदि इससे कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं।

अर्पण गुप्ता
कक्षा : पाँच 'ब'



विद्या में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।



स्वतंत्रता संग्राम

स्वतंत्रता संग्राम प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। इस संग्राम के कारण ही 200 वरसों से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूट कर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। भारतीयों को बहुत परेशानियाँ उसके लिए सहनी पड़ी थी। भारत को 15 अगस्त, 1947 को आज़ादी मिली थी भारत की आज़ादी में कई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा 3 अगस्त को 'रेडक्लिफ' ने खींची थी। 'लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक' भारत में पूर्ण स्वराज्य की माँग करने वाले पहले नेता थे। यह स्वतंत्रता भारतीय जनता के लिए कठिन यात्रा थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू और अन्य महान नेताओं ने बहुत मुश्किलें उठाई। यह दिन भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है।

सीया भीकदिया
कक्षा : पाँच 'ब'



सौर ऊर्जा

सूर्य द्वारा निकलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। यह सबसे बड़ा स्वच्छ स्रोत है तथा ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। अंतरिक्ष मिशन मुख्यतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। सौर ऊर्जा को तापीय एवं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सोलर प्लांट लगाकर इनसे उपयोगी विजली उत्पन्न की जा सकती है। इसकी मदद से ऊर्जा के अन्य स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उपकरणों में होता है जैसे सोलर पैनल, सोलर कुकर, सोलर वॉटर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर लैम्प और सोलर बैटरी आदि। सोलर ऊर्जा की मदद से दूर गाँव में भी विजली व्यवस्था अच्छी हो गई है। सौर ऊर्जा से विजली बनाने में शून्य प्रदूषण होता है। जल चक्र में सौर ऊर्जा एक विशेष भूमिका निभाता है। चीन दुनिया में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। दुनिया में सबसे बड़ा सोलर फ़ॉर्म 'मोरक्को' में है। सबसे बड़ा सोलर पार्क इस दुनिया का राजस्थान के फलौदी ज़िले में है। यहाँ प्रतिदिन 68 लाख यूनिट का उत्पादन होता है अतः सौर ऊर्जा भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

आरोही सुमन
कक्षा : पाँच 'ब'



जल संरक्षण

पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है और सभी जीवों के लिए समान रूप से आवश्यक है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगीकरण के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। जल की समस्या एक गंभीर समस्या बन गई है इसे सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। नदियों और झीलों की सफ़ाई, घरेलू स्तर पर जल का दुरुपयोग रोकना जैसे उपायों से जल संरक्षण किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में इसे अपनाना चाहिए। पानी बचाना पृथ्वी पर जीवन को बचाना है इसलिए हमें अभी से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

शिवराज बिस्वास
कक्षा : पाँच 'ब'

ગુજરાતી લેખની

ભારત તહેવારોનો દેશ



ભારત વિવિધતામાં એકતાનો દેશ છે. એ તો ખરું છે પણ ભારત ઉત્સવોનો દેશ પણ છે.

દેશમાં સામાજિક, ધાર્મિક અને રાષ્ટ્રીય તહેવારો ઉજવાય છે. તહેવારોની ઉજવણી લોકો ખૂબ જ ધામધૂમથી કરે છે કે ભાગ્યે કોઈ અઠવાડિયું એવું હશે કે દેશના કોઈને કોઈ ખૂણે કોઈ તહેવાર ન ઉજવાતો હોય! ભારત દેશમાં અલગ અલગ જાતિના લોકો અલગ તહેવારો ઉજવતા હોય પરંતુ આ બધાં તહેવારોમાં મુખ્ય કોઈ તહેવાર હોય તો તે છે દિવાળી. ગરીબ હોય કે તવંગર સૌ આનંદથી ઉજવે. આથી કહી શકાય તહેવારો જીવનમાં પરિવર્તન લાવનારા છે. ભારતના લોકો વિવિધ તહેવારો હળી-મળીને ઉજવે છે.

શિવાંશ પટેલ
૫ - અ



પંખીઓ



પંખી એટલે વિહંગ, ખગ. આકાશમાં પોતાની રીતે ઊડી મજા લે છે. પંખી અલગ-અલગ પ્રકારના જોવા મળે છે. પંખીઓની અલગ અલગ વિશેષતા હોય છે. દરેક પંખી અલગ અલગ રંગ, કદ, કંઠ ધરાવે છે. પંખીઓનો ખોરાક દાણા, નાનાં જીવજંતુ હોય છે. બાજ જેવા પંખી શિકારી પંખી તરીકે ઓળખાય છે. કબૂતર શાંતીનું દૂત ગણાય છે. મોર આપણું રાષ્ટ્રી પંખી છે. કોયલની વાણી મધુર છે. સાબરમેલી સાથે માટે જાણીતા છે. પંખીઓને જોવા અને સાથે રાખવા ગમે છે.

કેયા બોરડા
૫ - અ

તહેવારોની ઉજવણી



તહેવારોની ઉજવણી કરવાથી જીવનમાં આનંદ આવે છે. આપણે દિવાળી, હોળી, નવરાત્રી, ઈદ, મહોરમ, ઓણમ, ચેટીયાંદ વગેરે તહેવારો ઉજવીએ છીએ. તહેવારો ઉજવવામાં આપણને તહેવારની ઉજવણી કરવા પાછળને ઇતિહાસ જાણવા મળે છે. તહેવાર જીવનમાં પરિવર્તન લાવે છે. લોકોમાં ધાર્મિક વિચારો આવે છે. પરિવારના લોકો સાથે મળીને રહે છે. તહેવારની ઉજવણી પૂર્ણ થયા પછી તહેવારની યાદ આવે છે.

સિયા ભિખાડિયા
૫ - બ




રમતનું મહત્વ

રમતનું મહત્વ અને ભૂમિકા કોઈ એક જ અંદાજ માટે કરી શકતા નથી. રમત બે પ્રકારની રમાય છે. રમત ખરેખર એક મહત્વપૂર્ણ વિષય છે. રમત રમવાથી શારીરિક અને માનસિક વિકાસ થાય છે. રમત જીવનમાં વ્યવસાય માટે પણ ઉપયોગી થાય છે. રમતથી એકતા, પ્રામાણિકતા, સંઘભાવના, નીડરતા જેવા ગુણો આવે છે. આમ ટૂંકમાં કહી શકાય રમતએ રમત નથી રમતએ જીવન છે.



પહલ પટેલ
૫ - અ

પંખીઓની દુનિયા



પંખીઓને આકાશમાં ઉડતાં, ઝાડ પર ઝૂલા ખાતા જોઈને આપણને પણ પંખી બનવાની ઇચ્છા થાય છે. પંખીઓની દુનિયા પાંખોની મદદથી જ્યાં ગમે ત્યાં ફરવું, દાણા ચણવા, માળામાં રહેવું, મધુર અવાજથી બધાને ખુશ કરવા. હા, પણ! ઉત્તરાચણનો તહેવાર આવતાં પાંખો કપાઈ જવાનો ડર લાગે છે. વરસાદ પડતાં દાણા અને માળાની પણ ચિંતા થાય છે. પોતાના બચ્ચાંને તેમને પણ સાચવવાના હોય છે. આમ, લાગે છે કે આપણાં જેવી જ તેમની દુનિયા છે, પણ તેમની જેમ મન ફાવે ત્યાં ફરવા પાંખો નથી!

સ્વર કાકડીયા
૫ - બ

રમત



આપણે શું રમતો રમવી જોઈએ? તેનો જવાબ છે, હા. રમતો રમવી એ પણ અભ્યાસ જેટલી જ જરૂરી છે. અભ્યાસ કર્યા પછી મગજને શાંતિ, રમત રમવાથી મળે છે. રમતો બાળકોને મન મોટો ખજાનો છે. બાળકોને રમતો રમતાં ક્યારે થાક લાગતો નથી. રમતોમાંથી વિવિધ પ્રકારનું જ્ઞાન મળે છે. રમતો નાનાં - મોટાં બધા જ લોકો રમી રમી શકે છે. અભ્યાસ પણ રમત એટલે કે પ્રવૃત્તિ દ્વારા શીખવામાં આવે તો તે જલ્દી આવડે છે.

મિષ્ટી મહેતા
૫ - બ